

1102
17/10/12 9-page
17/10/12

Request No

Accel
30/10/12

Saath
20-10-12
Encl-3

प्रेषक,

महताब अहमद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं02, इलाहाबाद।

16764 -
Recd
File No. 100/2412
Serial No. 189

सेवा में,

उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

2.11.12

31
11/11/12

2-11-12

Seen by Har'ble Pushkar
Misra on 06/12/12
Sanjay

1294
18-10-12

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

विषय:- नयी मारुति आल्टो कार की खरीद के संबंध में सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय न्यायालय के पत्र सं0 15795 / IV-2412 / एडमिन. (ए) दिनांकित 9.10.2012 के अनुपालन में आपेक्षित सिडीकेट बैंक, अलीगढ़ से रू0 1,50,000/- व्यक्तिगत ऋण लेने संबंधी साधारण करार की शाखा प्रबन्धक के द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

2. इस संबंध में यह भी निवेदन है कि उपरोक्त ऋण करार के अनुसार ऋण की वापसी रू0 3,393/- मासिक की 60 किश्तों में होनी है।

3. पुनः यह भी निवेदन है कि उपरोक्त न्यू मारुति आल्टो कार की खरीद हेतु मैंने माननीय न्यायालय से रू0 2,50,000/- मोटरकार अग्रिम के रूप में प्राप्त किया है, जिसके संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र एवं माननीय न्यायालय के पक्ष में बन्धकनामा निष्पादित करके माननीय न्यायालय की सेवा में निश्चित समयसीमा के भीतर प्रेषित करना था।

4. मैंने उपरोक्त प्रपत्रों के साथ खरीद सूचना प्रपत्र को भी तैयार किया था, लेकिन पूर्व में की गयी संपत्ति के खरीद संबंधी विवरण जो खरीद सूचना प्रपत्र में निर्दिष्ट की जानी थी, स्थानान्तरण में खिल्लमिल्ल हो जाने से उपलब्ध नहीं थे। अतः उनके अभाव में खरीद सूचना भेजने का प्रारूप पूरा नहीं किया जा सका। इसी क्रम में मैंने उपयोग प्रमाण पत्र एवं बन्धकनामा माननीय न्यायालय की सेवा में तुरन्त प्रेषित कर दिया। भ्रमवश मैं इस विश्वास के अधीन था कि अन्य प्रपत्रों के साथ खरीद सूचना भी माननीय न्यायालय की सेवा में प्रेषित कर दिया है। अतः बाद में आपेक्षित खरीद सूचना नहीं भेज सका।

5. द्विवर्षीय आयविवरणी की तैयारी करते समय अपने व्यक्तिगत अभिलेखों को देखने पर मैंने यह पाया कि आपेक्षित खरीद सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। तत्पश्चात् मैंने तुरन्त माननीय न्यायालय की सेवा में आपेक्षित सूचना तैयार करके प्रेषित की है।

6. सूचना देने में जो बिलम्ब हुआ है, वह भूलवश व पूर्व खरीद की आपेक्षित विनिर्दृष्टियों स्थानान्तरण में पूर्ववर्ती अभिलेखों के खिल्ल-मिल्ल हो जाने के कारण तुरन्त उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप हुआ है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

7. उपरोक्त आपेक्षित प्रपत्र तथा स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय के

3057
So. Adm. M/A

DR(m)
19-10-12

1

JRC(m)

With 28 pgs

1

So. Adm. M/A

08/11/12

समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के विनम्र अनुरोध सहित सादर प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।
दिनांक: 16.10.2012

भवदीय
16/10/2012
(महताब अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-2 इलाहाबाद।

कायालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद
संख्यांक : 2446/XV ; 17/10/2012
जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद

Resort 98

साधारण करार
GENERAL AGREEMENT
(प्रवृत्त स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्पित किया जाए)
(To be stamped as per Stamp Act in force)

करार/THIS AGREEMENT EXECUTED BY

M. Tab Ahmad s/o Sri. Mukhtar Ahmad R/o T-29 Judge Compound Malkapur
near Civil Court Aligarh s/o A.S.T-11 Civil Court ALIGARH

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उधारकर्ता' कहा गया है और जिस पद के अंतर्गत उसके/उनके अपने-अपने वासिद, प्रशासक और समनुदेशी भी हैं) सिंडिकेट बैंक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित और कार्यरत बैंक है और जिसका प्रधान कार्यालय मणिपाल, उडुपी जिला, कर्नाटक राज्य में स्थित है जिसकी एक शाखा में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा है) के पक्ष में निष्पादित किया है।

(hereinafter called "the BORROWER" which expression shall include his/their respective heirs, executors, administrators and assigns) in favour of Syndicate Bank, a Bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, with its Head Office situated at Manipal in Udupi District, Karnataka State and having a Branch at Z.P.A. Panohavar Aligarh (hereinafter called "The Bank").

उधारकर्ता को प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता है और उधारकर्ता और प्रतिभू के अनुरोध पर के लिए तारीख के आवेदन के अनुसार, बैंक इस विरोध और अन्य दस्तावेजों में वर्णित निबंधनों पर रु. (केवल रुपये) का ऋण/ओवरड्राफ्ट उधारकर्ता को मंजूर करने के लिए सहमत हो गया है।

WHEREAS THE BORROWER IS IN NEED OF MONEY for the purpose of Domestic needs and at the request of the Borrower and the Surety, as per application dated 24.11.09 for Rs. 15000 the Bank has agreed to grant to the borrower a loan/overdraft of Rs. 15000 (Rupees Quince fifty Thousand only) upon the terms set forth in these presents and other documents.

बैंक द्वारा उधारकर्ता को उधार दी जाने वाली रुपए की राशि के प्रतिफलस्वरूप, जैसा कि इसकी अनुसूची - 1 में वर्णित है, उधारकर्ता इसके द्वारा: In consideration of the sum of Rs. 1,50,000 to be lent to the Borrower by the Bank as mentioned in the Schedule-I hereto, the Borrower hereby :

सिंडिकेट बैंक
SYNDICATE BANK
श्रीमान प्रबन्धक/Br. Manager
117 अलाहाबाद / L.P. Aligarh

Handwritten signature

अ)A.) 1. इसकी अनुसूची-1 में यथा वर्णित ऋण/सुविधा का प्रतिसंदाय करने का करार करता है। इसके अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट के मामले में, पूर्वोक्त खाता को चालू रहने के दौरान अतिशेष जमा करने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगा और उसे को या उसके पूर्व बंद करने का वचन देता है।
Agrees to repay the loan/facility as mentioned in Schedule II hereto. Further, in the case of overdraft, undertakes to operate the above account briskly bringing it to credit balance during the currency and close the same on or before

2 करार करता है और वचन देता है कि उक्त अग्रिम इसमें अंतर्विष्ट और साथ ही प्रतिभूति दस्तावेजों में सम्मिलित निबंधनों से शासित होगा किंतु प्रतिभूति दस्तावेजों के संबंध में वे अभिव्यक्त या आवश्यक प्रभावों द्वारा इस विले द्वारा उपांतर्गत किए जा सकेंगे।
Agrees and undertakes that the said advance shall be governed by the terms hereinafter contained as well as those embodied in the security documents except in so far as the terms of the security documents may expressly or by necessary implication be modified by these presents.

3. करार करता है और वचन देता है कि उक्त अग्रिम का उपयोग सामान्यतः इसमें इसके पूर्व वर्णित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और यह कि इस शर्त के किसी अतिक्रमण के लिए बैंक को, इसमें अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संपूर्ण ऋण की एकम ब्याज और अन्य प्रभावों सहित, दंडिक विधि के अन्तर्गत दुर्भ्रयोग के लिए उधारकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही के अलावा, वापस लेने और वसूल करने का अधिकार होगा।
Agrees and undertakes that the said advance shall be utilised exclusively for the purposes mentioned herein above and that for any violation of this condition, the Bank has the right without prejudice to any other terms contained herein, to recall and recover the entire loan amount with interest and other charges besides proceeding against the borrower for misutilisation under Criminal Law.

4. बैंक द्वारा उधार दिए गए मूल धन पर या उसके उतने भाग पर जो असंदत रह गया है, समय-समय पर प्रतिशत वार्षिक दर पर जो सिंडिकेटबैंक की उधार देने की उच्चतम दर (पी.एल.आर.)/उधार देने की उच्चतम मीयादी दर (पी.टी.एल.आर.) से % अधिक है जो समय-समय पर उसके द्वारा बढ़ती या गिरती रहती है, उससे सूचना पट्ट पर अधिसूचित या समाचार पत्र में प्रकाशित या प्रत्येक वर्ष में कलेंडर मासिक/तिमाही आधारित उधारकर्ता को दिए गए विवरण में दी गई है, ब्याज का संदाय करने के लिए सहमत है और यह भी करार करता है कि ऐसा ब्याज कलेंडर मासिक/तिमाही के अंतिम दिन संदाय किया जाएगा, सिवाय उसके जहाँ प्रतिसंदाय मासिक/तिमाही समान किस्तों पर अनुबंधित है।
Agrees to pay interest on the principal sum lent by the Bank or on so much thereof which remains unpaid from time to time at the rate of 12.75% per annum being 25% over and above the Syndicate Bank's Prime Lending Rate (PLR) / Prime Term Lending Rate (PTLR) rising or falling therewith from time to time and notified on its Notice Board published in Newspaper or made known in the statement to the Borrower at calendar monthly/quarterly basis in each year and further agrees that such interest will be paid on the last day of the calendar month/quarter except where repayments are stipulated in monthly/quarterly instalments.

5. अतिशेष रकम पर ऐसी दर पर जो बैंक द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, अतिशेष ब्याज का संदाय करेगा करार करता है और प्रतिभूति/ऋण लेखा की बाबत आवधिक निरीक्षण प्रभार आनुपंगिक प्रभार किसी अन्य सुरक्षा को संदाय गारंटी शुल्क, कमीशन, ब्याज दर जो लागू होता हो, आदि का बैंक द्वारा समय-समय पर विहित दर पर संदाय करने का भी करार करता है।
Agrees to pay overdue interest at such rate as may be fixed by the Bank from time to time on the amount overdue and also to pay periodical inspection charges, incidental charges, guarantee fee, commission or any amount payable to any other organisation, interest on security applicable etc., in respect of the security/loan account at the rates prescribed by the Bank from time to time.

6. मंजूर की गई रकम के अनुपयोजित भाग पर प्रचलित दर (दरों) पर या ऐसी अन्य दर पर जो बैंक द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, प्रतिबद्धता प्रभावों का संदाय करने का करार करता है।
Agrees to pay commitment charges at the rate prevailing or at such other rate/s as may be fixed by the Bank from time to time, on the unutilised portion of the sanctioned amount.

Signature
FOR SYNDICATE BANK
18/07/2012

Signature

करार करता है कि बैंक, किसी सूचना प्रणाली या ऐसी अन्य प्रत्येक दस्तावेजों के द्वारा प्रभार प्रधान कार्यालय या अन्य विनियामक अधिकार का इसके द्वारा अभिव्यक्त या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना पर्याप्त सूचना होगी।
Agrees that the Bank may, in the event of a Lending Rate, credit risk or other factor prevalent in the Bank from time to time, increase the Head Office of the Bank's overdue interest, incidental charges, incidentally expressly waives the right to inspect the statement of account in the notice board in the event of a failure to pay the same on

करार करता है कि यदि नियत तारीख पर प्रभार आदि का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी बकाया, समय-समय पर नियत दर पर अतिशेष ब्याज आदि का संदाय करेगा।
Agrees that if monthly/quarterly instalments are not paid on the due date, such arrears at the rate fixed by the Bank shall be payable with interest at the rate fixed by the Bank.

कोई दस्तावेज/वाउचर/कामज प्रभार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा स्विकार करने के लिए करार करता है।
Agrees to accept a copy of the statement of account generated by the authorised officer of the Bank as per the statement generated by the Bank.

करार करता है कि यदि नियत तारीख पर प्रभार आदि का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी बकाया, समय-समय पर नियत दर पर अतिशेष ब्याज आदि का संदाय करेगा।
Agrees that if monthly/quarterly instalments are not paid on the due date, such arrears at the rate fixed by the Bank shall be payable with interest at the rate fixed by the Bank.

कोई दस्तावेज/वाउचर/कामज प्रभार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा स्विकार करने के लिए करार करता है।
Agrees to accept a copy of the statement of account generated by the authorised officer of the Bank as per the statement generated by the Bank.

इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता इसमें सहमत है कि बैंक को इसमें अतिरिक्त, उधारकर्ता इसमें सहमत है कि बैंक को
Further the Borrower hereby agrees that the Bank may, in the event of a Lending Rate, credit risk or other factor prevalent in the Bank from time to time, increase the Head Office of the Bank's overdue interest, incidental charges, incidentally expressly waives the right to inspect the statement of account in the notice board in the event of a failure to pay the same on

करार करता है कि यदि नियत तारीख पर प्रभार आदि का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी बकाया, समय-समय पर नियत दर पर अतिशेष ब्याज आदि का संदाय करेगा।
Agrees that if at any time the Borrower is found to be misrepresented/ misinformed, the Bank shall have the liberty to stop further advance.

Repay 98

करता है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को उधार लेने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

करार करता है कि ब्याज (सिवाय उसके जहाँ प्रतिसंदाय समान मासिक किस्तों में अनुबंधित है), अतिशोध्य, ब्याज, निरीक्षण प्रभार, आनुषंगिक प्रभार, गारंटी शुल्क/कमीशन आदि उधारकर्ता के खाते में विकलित किए जा सकेंगे या उनका नियत तारीख पर संदाय करने में असफलता की दशा में अन्यथा रूप से वसूल किए जा सकेंगे।

Agrees that interest (except where repayments are stipulated in equated monthly instalments), overdue interest, inspection charges, incidental charges, guarantee fee, commission etc., may be debited to the account of the borrower or recover otherwise in case of failure to pay the same on due dates.

करार करता है कि बैंक, किसी सूचना के बिना अपनी उच्चतम उधार दर में परिवर्तन के अनुसार, प्रत्येक जोखिम दर प्रणाली या ऐसी अन्य प्रत्येक दर प्रणाली जो बैंक में समय-समय पर प्रचलित हो या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक के प्रधान कार्यालय या अन्य विनियामक प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार या अन्यथा ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है और अतिशोध्य ब्याज, आनुषंगिक प्रभारों, निरीक्षण प्रभारों आदि की दर को भी परिवर्तित कर सकता है और उधारकर्ता ब्याज दर, निरीक्षण प्रभारों, आनुषंगिक प्रभारों आदि में ऐसे परिवर्तन के लिए सूचना या प्रज्ञापन के अधिकार का इसके द्वारा अभिव्यक्ततः अधित्यंजन करता है और यह कि बैंक के परिसर में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित या उधारकर्ता को प्रस्तुत लेखा-विवरण में शामिल ब्याज के परिवर्तन संबंधी कोई सूचना पर्याप्त सूचना होगी।

Agrees that the Bank may, without notice, vary the interest rate as per changes in its Prime Lending Rate, credit risk rating system, or such other credit rating system as may be prevalent in the Bank from time to time or as per instructions of Reserve Bank of India or Head Office of the Bank or other regulatory authorities or otherwise and also vary rate of overdue interest, incidental charges, inspection charges, etc., and the borrower hereby expressly waives the right of notice or intimation for such variation in the interest rate, inspection charges, incidental charges, etc., and any notice on variation of interest displayed in the notice board in the premises of the Bank or published in any newspaper or included in the statement of account furnished to the borrower shall be sufficient notice.

9. करार करता है कि यदि नियत तारीखों को मासिक/त्रैमासिक ब्याज और/या कोई किस्त, निरीक्षण प्रभार, आनुषंगिक प्रभार आदि का संदाय नहीं किया जाता है/ओवरड्राफ्ट सीमा का नवीकरण नहीं किया जाता है/लेखा अध्यादाय हो जाता है तो ऐसी बकाया/समाप्त सीमा के अधीन रकम/अध्यदाय रकम पर लेखा के विनियमित होने तक बैंक द्वारा समय-समय पर नियत दर पर अतिशोध्य ब्याज लगेगा।

Agrees that if monthly/quarterly interest and/or any instalment, inspection charges, incidental charges etc., is/are not paid on due dates/overdraft limit is not renewed/the account is overdrawn, such arrears/amount under expired limit/overdrawn amount shall bear overdue interest at the rate fixed by the Bank from time to time till the account is regularised.

10. कोई दस्तावेज/वाउचर/कागज प्रस्तुत किए बिना, बैंक द्वारा बनाए गए और बैंक के किसी सम्पत्तः प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा विवरण के अनुसार या किसी यांत्रिकीय, वैद्युत युक्ति आदि द्वारा उत्पादित विवरण के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा देय के रूप में दावा की गई किसी रकम की शुद्धता के निश्चयक सबूत के रूप में स्वीकार करने के लिए करार करता है।

Agrees to accept as conclusive proof of correctness of any sum claimed as due by the Borrower as per the statement of account made out by the Bank and signed by any duly authorised officer of the Bank, without production of any document/voucher/paper or as per statement generated by any mechanical, electronic device etc.

अ)B) इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता इसके द्वारा :

Further the Borrower hereby :

1. करार करता है कि यदि किसी समय बैंक की जानकारी में यह बात आती है कि उधारकर्ता ने ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन में दुरुव्यपदेशन किया है/गलत जानकारी दी है तो बैंक आगे ऋण देना बंद करने और बकाया सम्पूर्ण देय रकम वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

Agrees that if at any time it comes to the knowledge of the Bank that the Borrower has misrepresented/ misinformed in the loan application for availing the loan, the Bank is at liberty to stop further releases in the loan and recall the entire dues outstanding.

ALLS...
FOR SYNDICATE BANK

शाखा प्रबन्धक/Br. Manager
जि.प. अलीगढ़ / Z.P. Aligarh

Handwritten signature

2. अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना बैंक को देने का वचन देता है और उसके द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, यदि बैंक उधारकर्ता/प्रतिभू के अंतिम ज्ञात पते पर किसी संसूचना की सूचना तामील करता है तो वह पर्याप्त होगी।

Undertakes to intimate to the Bank any change in their address/es and in the event of their failure to do so, it will be sufficient if the Bank serves a notice or communication to the last known address of Borrower/Surety.

3. वरार करता है और घोषणा करता है कि उधारकर्ता ने इसकी अनुसूची - III में पूर्णतः वर्णित अन्विल्लंगित शेयर/डिबेंचर/बांड/जीवन बीमा निगम की पॉलिसियाँ/यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट/सरकारी प्रतिभूतियाँ जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र बही ऋण, सावधि जमाराशियाँ आदि भी हैं, उनके साथ संगत अंतरण विलेख (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभूतियाँ' कहा गया है) बैंक को सौंप दी हैं।

Agrees and declares that the Borrower has handed over to the Bank unencumbered Shares/Debtures/Bonds/LIC Policies/Units of UTI/Government Securities including NSCs, Book Debts, Term Deposits etc. fully described in the Schedule-III hereto, as security for the aforesaid facility along with relevant transfer deeds (herein-after called as 'Securities').

4. घोषणा करता है कि पूर्वोक्त प्रतिभूतियाँ उनकी हैं और बैंक उन्हें ऋण/ओवरड्राफ्ट के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में धारण करेगा और अभिव्यक्ततः यह कार किया जाता है कि उधारकर्ता, बैंक की लिखित सहमति के बिना, बैंक को दी गई प्रतिभूतियों पर कोई भार/धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम किसी अन्य पक्षकार/व्यक्ति के पक्ष में सृजित नहीं करेगा।

Declares that the aforesaid Securities belong to them and the Bank shall hold them as security for the repayment of loan/overdraft and it is expressly agreed that the Borrower shall not, without the written consent of the Bank, create in any manner any charge/lien or other encumbrances on the Securities given to the Bank, in favour of any other party/person.

5. क) वरार करता है कि वह उधार लेने वाला बैंक को नियत तारीखों को ऋणदाताओं से देय ऋणों की वसूली प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उनको समझाने का प्रयास करेगा।

a) agrees that he shall endeavor to follow up with the debtors to enable the bank to obtain the payment of the debts on their respective due dates.

ख) उधार लेने वाला बैंक की लिखित सम्मति के बिना उक्त ऋणों में से किसी ऋण का निर्मोचन या प्रशमन नहीं करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे बैंक द्वारा ऋणों की वसूली में अड़चन आए।

(b) he shall not release or compound any of the said debts without the consent in writing of the Bank and will not do anything impeding recovery of the debts by the Bank.

ग) उधार लेने वाला बैंक को अपना अभिकर्ता या अपना मुखतार नियुक्त करता है और माँग किए जाने पर उसकी ओर से वाद चला सकेगा, वसूली कर सकेगा और बैंक के पास आडमानित सभी बही ऋणों या उनमें से किसी ऋण का प्रभावी निर्मोचन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए वाद फाइल कर सकेगा, वाद पत्र में घोषणा कर सकेगा, शपथ पत्र कर सकेगा, अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा, समझौता और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो उधार लेने वाले द्वारा ऋणों की वसूली के लिए किए जा सकते थे।

(c) he hereby appoints the Bank as its agent or Attorney in its name and on its behalf on demand, sue for, recover and give effectual discharges for all or any of the book debts hereby hypothecated to the Bank and for that purpose to file suits, to declare plaints, make affidavits, to employ advocates, to compromise and do all other acts and things as could have been done by the Borrower for the recovery of the debts.

6. वरार करता है कि अनुसूची-III के अनुसार दी गई प्रतिभूतियाँ बैंक को समय-समय पर देय अतिशेष के लिए और उक्त ओवरड्राफ्ट लेखा पर देय होने वाले अंतिम अतिशेष के लिए भी प्रतिभूति समझी जाएगी और बनी रहेगी और उक्त सीमा को, उक्त ओवरड्राफ्ट लेखा को किसी समय या समय-समय पर जमा खाते में लाए जाने के कारण निःशेष हुआ नहीं समझा जाएगा।

Agrees that the Securities given as per Schedule-III shall be deemed to be and shall be continuing security for the balance due to the Bank from time to time and also for the ultimate balance to become due on the said overdraft account and the said limit is not to be considered exhausted by reason of the said overdraft account being brought to credit at any time or from time to time.

Attested
by
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

करार करता है कि वे सभी बोनस शेयर... ला... बने रहने की अवधि के प्रतिभूति होना ठहराता है। तो मैं उसके लिए अधिदाय के बैंक किसी दायित्व से मुक्त हो... अंतरित करा रहेगा।

Agrees that so long as I am entitled to all accretions shares, dividend, interest of subsistence of the security in the currency of the security in for the same and the Bank for the same. The Bank at the cost of the Borrower.

8. वरार करता है कि यदि उधार निबंधनों/शर्तों का कोई भंग करता है तो बैंक, बैंक के अ-एसी कीमत पर और एसी रीति से सकेगा या उनकी वसूली या...

Agrees that if the Borrower breaches any clause/terms/condition of the Bank, may sell the property of Borrower, at such price as may be determined by the Bank.

9. वरार किया जाता है कि इस ऋण की तारीखों या ओवरड्राफ्ट की तारीखों की वसूली करने और अपने एकमात्र प्रवृत्त करार वसूल करने...

Agrees that notwithstanding the dates of instalment repayment of the overdraft account by notice in writing, the Bank may enforce the charges by enforcing the same as it thinks fit.

10. प्राधिकृत करता है और वरार किया गया या दिखा गया होगा और हममें से प्रत्येक किसी के द्वारा इस प्रकार ओडो/चालू खाते में निःसंयुक्त रूप से और अल्पमाना जाएगा।

Authorises and agrees that any one of us or any of us jointly or severally authorised agent or attorney-in-fact of any of us including the Bank may at any time and from time to time bring to credit at any time or from time to time the said overdraft account.

करार करता है कि जब तक उधारकर्ता बैंक का कर्जदार रहता है तब तक बैंक प्रतिभूतियों की बाबत जिसके अंतर्गत सभी बोनस शेयर, लाभांश, ब्याज आदि भी हैं, सभी उपचर्यों और स्वाभित्वों का हकदार होगा। मैं प्रतिभूति के बने रखने की अवधि के दौरान बोनस प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करता हूँ और उसे दायित्वों के लिए प्रतिभूति होना ठहराता हूँ। प्रतिभूति के चालू रहने के दौरान यदि अधिकार शेयर कंपनी द्वारा प्रस्थापित किए जाते हैं तो मैं उसके लिए अधिदाय करने का वचन देता हूँ और उसके लिए अधिदाय करने में मेरी असफलता के कारण बैंक किसी दायित्व से मुक्त हो जाएगा। बैंक उधारकर्ता के खर्च पर अपने ही/किसी अन्य के नाम पर प्रतिभूतियाँ अंतरित करा सकेगा।

Agrees that so long as the Borrower remains indebted to the Bank, the Bank shall be entitled to all accretions and entitlements in respect of the Securities including all bonus shares, dividend, interest etc., authorises the Bank to receive bonus shares during the period of subsistence of the security and hold the same as security for the liability. During the currency of the security if right shares are offered by the company, undertakes to subscribe for the same and the Bank is absolved from any liability because of my failure to subscribe for the same. The Bank may get the Securities transferred to its own/some other name at the cost of the Borrower.

8. करार करता है कि यदि उधारकर्ता प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम करता है या इस विलेख में अंतर्विष्ट किसी खण्ड/निबंधनों/शर्तों का कोई भंग करता है या किस्तों के देय होने पर बैंक द्वारा माँग की जाने पर संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो बैंक, बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता की जोखिम और खर्च पर, ऐसी कीमत पर और ऐसी रीति से जैसा बैंक उचित समझे, प्रतिभूतियाँ या उनमें से कोई प्रतिभूति का विक्रय कर सकेगा या उनकी वसूली या व्ययन कर सकेगा।

Agrees that if the Borrower commits default in repayment or commits breach of any clause/terms/conditions contained in these presents or fail to make payment as and when instalments fall due/demanded by the Bank, the Bank, without prejudice to the other rights of the Bank, may sell, realise or dispose of the Securities or any of them at the risk and cost of Borrower, at such price and in such manner as the Bank thinks fit.

9. करार किया जाता है कि इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऋण के प्रतिसंदाय के लिए नियत किस्तों की तारीखों या ओवरड्राफ्ट के प्रतिसंदाय के लिए नियत तारीख के होते हुए भी, बैंक, लिखित रूप में सूचना द्वारा माँग करने और अपने एकमात्र विवेकानुसार संपूर्ण बकाया रकम और उस पर ब्याज और अन्य प्रभार प्रतिभूतियों को प्रवृत्त करा कर वसूल करने या किसी अन्य रीति से जो बैंक उचित समझे, वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- Agrees that notwithstanding anything contained herein to the contrary and irrespective of the dates of instalments fixed for the repayment of the loan or the date fixed for the repayment of the Overdraft, the Bank will be at liberty and at its sole discretion to demand by notice in writing and recover the entire amount outstanding with interest and other charges by enforcing the Securities or recover the monies in any other manner the Bank thinks fit.

10. प्राधिकृत करता है और करार करता है कि उपरोक्त संव्यवहार के लिए हम में से किसी के द्वारा या प्रतिभू द्वारा किया गया या दिखा गया संदाय, अभिस्वीकृति या वचन हम सभी पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग आबद्धकर होगा और हममें से प्रत्येक हममें से अन्य के लिए और प्रतिभू सम्यक् प्राधिकृत एजेंट का गठन करेगा और हममें से किसी के द्वारा इस प्रकार किया गया या दिया गया संदाय या अभिस्वीकृति या वचन जिसके अंतर्गत बचत बैंक/ओडी/चालू खाते में विकलन के रूप में और ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते में जमा के रूप में संदाय भी है, हम पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग आबद्धकर है और परिसीमा के प्रयोजन के लिए आंशिक संदाय/अभिस्वीकृति माना जाएगा।

Authorises and agrees that the payment, acknowledgement or undertaking made or given by any one of us or surety towards the above transaction shall be binding on all of us jointly or severally and each of us constitute the other among us and the surety the duly authorised agent and the payment or acknowledgement or undertaking so made or given by any of us including payment by way of debit to SB/OD/Current A/c and credit to the loan/overdraft account, is binding on us jointly and severally, and be treated as part payment/acknowledgement for the purpose of limitation.

FOR SYNDICATE BANK

शाखा प्रबन्धक/Br. Manager
जि. अलीगढ़ / Z.P. Aligarh

U. P. / A. S. D. - 3

11. करार करता है कि यदि बैंक की राय में उधारकर्ता के लिए उसके द्वारा करार पाए गए अनुसार ऋण का प्रतिसंदाय करना कठिन है तो बैंक को संवितरण और/या प्रतिसंदाय के कार्यक्रम को पुनःचरणबद्ध करने से कोई बात प्रतिषिद्ध नहीं करेगी है और संवितरण और/या प्रतिसंदाय का पुनरीक्षित कार्यक्रम जो बैंक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा उधारकर्ता और प्रतिभू पर आबद्ध होगा और उसे इस करार में सम्मिलित समझा जाएगा और उक्त कार्य किसी भी तरह से उधारकर्ता या प्रतिभू को इस करार के अधीन अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और यह भी कि पुनःचरणबद्ध करने का उक्त कार्य इस करार के अधीन देय संपूर्ण रकम की किसी भी समय माँग करने और वसूल करने के लिए बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

Agrees that, nothing prohibits the Bank if, in its opinion, it is difficult for the Borrower to repay the loan as agreed upon by him, to rephase the schedule of disbursement and/or repayment and the revised schedule of disbursement and/or repayment as decided by the Bank and informed to the Borrower shall be binding on Borrower and shall be deemed to have been incorporated in this Agreement and the said act will not in any way absolve the Borrower or the Surety from his or their liability under this Agreement and further that the said act of rephasing is without prejudice to the rights of the Bank to demand and recover the entire amount due under this agreement at any time.

12. इस करार के अधीन बैंक को शोध्य मूलधन, ब्याज और/या अन्य प्रभार, व्यय आदि के लिए सूचना के बिना अपने ब.ब./ओ.डी./चालू खाते में उस सीमा तक जिस तक उक्त खाते में अतिशेष उपलब्ध है, विकलन करने के लिए बैंक के साथ करार करता है और उसे प्राधिकृत करता है और उक्त विकलन इसके द्वारा विनिर्दिष्ट: दिए गए प्राधिकार के अनुसार किया जाएगा और ऐसी रकम का ऋण खाते में जमा किया जाना, परिसीमा के प्रयोजन के लिए संदाय द्वारा अभिस्वीकृति माना जाएगा।

Agrees and authorises the Bank to debit his/their SB/OD/CA/c without notice, towards principal, interest and/or other charges, expenses, etc., due to the Bank under this Agreement to the extent of balance available in the said account and the said debit made as per the authority specifically given hereby and credit of such amount to the loan account, shall be treated as an acknowledgement by payment for the purpose of limitation.

13. मैं बैंक द्वारा समय-समय पर विहित मार्जिन को बनाए रखने के लिए और तत्कालीन बाजार दर के अनुसार विहित मार्जिन की कटौती के पश्चात् मेरे द्वारा देय पूर्ण रकम तक धन में अंतर का संदाय करके या बाजार के मूल्य में जो भी क्षय हुआ हो, उसके बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप करके उक्त प्रतिभूति का मूल्य बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से वचन देता हूँ। मेरे द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, मैं इसके द्वारा बैंक को इसमें वर्णित प्रतिभूति या उसके किसी भाग को किसी भी समय बेचने के लिए और देय रकम में आगम का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। मैं इसके द्वारा बैंक को इसमें वर्णित देय रकम के प्रतिसंदाय या अन्यथा के होते हुए भी निरूरी भी कारण से बैंक के उधार लिए गए मेरे अन्य ऋणों या दायित्वों के लिए इस करार द्वारा समाविष्ट प्रतिभूति को धारण करने और उक्त प्रतिभूति को बेचने तथा ऐसे सभी ऋणों और दायित्वों के लिए व्यय, कमीशन आदि की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम को नियोजित करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूँ।

Undertakes to maintain the margin prescribed by the bank from time to time and keep the value of the said security after deducting the prescribed margin to the full amount due by him according to the Market rate of the day either by paying in the difference in money or by deposit of additional security equivalent in value of the market deterioration as may be. In the event of his failing to do so the borrower hereby authorises the Bank to sell any portion of or all the security stated herein at any time and apply the proceeds towards the dues and also hereby authorises the bank notwithstanding the repayment or otherwise of the dues mentioned herein to hold the security covered by this agreement for any other debts or liabilities of the borrower owing to the Bank on any account whatsoever and to sell the said security and appropriate the sale proceeds after deducting the expenses commission etc. towards all such debts and liabilities.

14. मैं इसके द्वारा बैंक को उक्त प्रतिभूतियाँ, लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट विक्रय द्वारा या ऐसी रीति में जो बैंक उचित समझे, गुझे निर्देश किए बिना, बेचने या अन्यथा व्ययन करने के लिए, उस दशा में प्राधिकृत और सशक्त करता हूँ जब मैं उक्त वचनपत्र के अधीन देय रकम का प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करूँगा।

Hereby authorises securities either by fit, without reference to this agreement.

मैं इसके द्वारा आगे बैंक को प्रतिसंदाय के आगमों से स्वयं प्रतिपूर्ति का विक्रय में नियोजित दलालों की रीति से उपगत किसी हानि के बिना यदि उसके पश्चात् कोई अतिशेष अन्यथा, और चाहे वह पूर्णतः शाब्दिक अन्यथा, और चाहे वह समय किसी घाटे के समायोजन के लिए एकल या किसी व्यक्ति (यों) के लिए भी बैंक को प्राधिकृत अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव कब्जाधीन किसी अन्य आर्थिक अभिस्वीकार करना है और Further authorises the securities, all costs, c. Bank shall not be responsible for auctioneers engaged in respect of the said should any balance remain other debts or liabilities any other branches] shall be due at the time standing to borrower ever with the bank. adjustment of any debt to the right of General any other asset or of the Bank, which right of

6. मैं किसी मुहतारानामा या अंतरण करने में उसे समर्थ देता हूँ और मैं यह करार करता हूँ जो उक्त प्रतिभूति के लिए जो उक्त प्रतिभूति के लिए Further agrees and undertakes which have been given said security documents for any damage or deterioration including risks of Bank

7. मैं करार करता हूँ कि बैंक Agrees that the Bank

8. मैं करार करता हूँ कि सुविधा Agrees that the facilities

9. फर्म या फर्म के सदस्यों के परिवर्तन उधारकर्ता या हमें Agrees in case of a

Attached
12/10/12

Signature

bayer
19

Hereby authorises and empowers the Bank to sell or otherwise dispose off the said securities either by public auction or private sale, or in such manner as the bank may think fit, without reference to the borrower in case he makes default in repaying the dues under this agreement.

मैं इसके द्वारा आगे बैंक को प्रतिभूति (यों) रखने और बेचने के सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों की उक्त प्रतिभूतियों के आगमों से स्वयं प्रतिपूर्ति कर लेने/समायोजित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ और बैंक उक्त प्रतिभूति(यों) के विक्रय में नियोजित दलालों या नीलामकर्ताओं से या माध्यम से या उक्त प्रतिभूतियों की बाबत किसी भी अन्य रीति से उपगत किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और बैंक को देय रकमों की भी समायोजित करेगा और यदि उसके पश्चात् कोई अतिशेष बना रहता है तो मैं बैंक को, बैंक के प्रति मेरे किसी अन्य ऋणों या दायित्वों के लिए (चाहे वह पूर्वोक्त शाखा में हो या किन्हीं अन्य शाखाओं में हो) और चाहे वे प्रतिभूत किए गए हों या अन्यथा, और चाहे वह सगय पर देय हो या नहीं, रकम को समायोजित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ और मैं किसी घाटे के समायोजन के लिए बैंक के पास (चाहे पूर्वोक्त शाखा में या किसी अन्य शाखा में) किसी भी खाते में एकल या किसी व्यक्ति (यों) के साथ संयुक्त रूप से मेरे खाते में जमा किसी रकम या रकमों को विनियोजित करने के लिए भी बैंक को प्राधिकृत करता हूँ। इसके द्वारा प्रदत्त विनियोजन का अधिकार साधारण धारणाधिकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जिसे बैंक मुझे सूचना दिए बिना उधारकर्ता या प्रतिभू की बैंक के कब्जाधीन किसी अन्य आस्ति या धन की बाबत प्रयोग कर सकेगा बैंक के इस अधिकार को मैं इसके द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ और मान्यता प्रदान करता हूँ।

Further authorises the bank to reimburse itself/adjust out of the proceeds of the said securities, all costs, charges and expenses of keeping and selling the security/ies, and the Bank shall not be responsible for any loss incurred from or through the brokers or auctioneers engaged in the sale of the said security/ies or in any other manner what-so-ever in respect of the said security/ies, and the Bank shall also adjust dues to the bank and should any balance remain thereafter, authorises the bank to adjust the amount towards any other debts or liabilities of the borrower to the Bank [whether at the aforesaid branch or at any other branches] and whether the same are secured or otherwise and whether the same shall be due at the time or not, and also authorises the Bank to appropriate any sum or sums standing to borrower's credit singly or jointly with any person/s in any accounts what-so-ever with the bank, [whether at the aforesaid branch or at any other branch] towards the adjustment of any deficit. The right of appropriation hereby conferred is without prejudice to the right of General Lien that the Bank may without notice to me exercise in respect of any other asset or money belonging to the borrower or surety and in the possession of the Bank, which right of the Bank, is hereby acknowledged and recognized.

16. मैं किसी मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार को जो मैंने बैंक को उक्त प्रतिभूति दस्तावेजों का विक्रय करने और अंतरण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए दिया है या दे सकता हूँ, न रोकने के लिए आगे करार करता हूँ और वचन देता हूँ और मैं यह करार करता हूँ कि बैंक संधमारी और बाढ़ की जोखिमों सहित किसी नुकसान या अवज्ञा के लिए जो उक्त प्रतिभूति (यों) को उसके कब्जे में रहते हुए हो, उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

Further agrees and undertakes not to revoke any Power of Attorney or other Authority which have been given or may be given to the Bank to enable it to sell and to transfer the said security documents and agrees that the Bank shall not be answerable or responsible for any damage or depreciation that the said security/ies may suffer while in its possession including risks of burglary and floods.

17. मैं करार करता हूँ कि बैंक दस्तावेजों के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूति को समनुदेशित/पुनः आडभग्नित कर सकता है।
Agrees that the Bank may assign/re-hypothecate the security covered by the documents.

18. मैं करार करता हूँ कि सुविधा, बैंक की किसी भी शाखा या अन्य संस्था में अंतरणीय है।

Agrees that the facility is transferable to any of the branches of the bank or other institution.

19. फर्म या फर्म के सदस्यों की दशा में, करार करता है कि इस करार के धारू रहने के दौरान फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन उधारकर्ता या हम में से किसी एक या अधिक के दायित्व का हास या उन्मोचन नहीं करेगा।

Agrees in case of a firm or members of a firm, no change whatsoever in the constitution of

Attorney for SYNDICATE BANK

शाखा प्रबन्धक/Br. Manager
जि.प. अलगा / Z.P. Alga

Handwritten signature

the firm during the continuance of this agreement shall impair or discharge the liability of the borrower or any one or more of us there under.

20. क) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे यह करार करता है कि बैंक किसी योजना में शामिल हो सकेगा और/या बैंक उधारकर्ता की कोई जानकारी दे सकेगा और/या ऋण या इस विलेख के फायदे और प्रतिभूति दस्तावेज किसी सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं या पक्षकारों को पक्ष में ऐसी संस्थाओं से या पक्षकारों के बैंक द्वारा प्राप्त किसी पुनः वित्तपोषण साहायिकी, पुनः मितिकाटा या उधार गारंटी के लिए या किसी अन्य कारण के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित कर सकेगा और उधारकर्ता अपने व्यय पर दस्तावेज निष्पादित करेगा और समनुदेशन को प्रभावी करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए सभी कार्य, काम करेगा या आश्वासन देगा। यह भी करार किया जाता है कि यह अग्रिम पूर्वोक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों/अनुदेशों द्वारा भी शासित होगा और उधारकर्ता बैंक से सूचना के बिना भी ऐसे निबंधनों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत है।

a) The Borrower hereby further agrees that the Bank may join any scheme and/or furnish any information of the Borrower and/or assign the debt or the benefit of these presents and the security documents in favour of any Government, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India or other Financial Institutions or party/ies as security for any refinance/subsidy, rediscount or credit guarantee obtained by the Bank from such institutions or party/ies or for any other reasons and the Borrower shall at his expense execute documents and do all acts, deeds or assurances for the effectuation of assignment or for any other purpose. It is also agreed that this advance shall also be governed by guidelines/instructions issued from time to time by the aforesaid Financial Institutions and the Borrower agrees to be bound by such terms even without notice from the Bank.

ख) 1) उधारकर्ता समझता है कि उसे ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं की मंजूरी करने के संबंध में एक पूर्व शर्त के रूप में बैंक द्वारा उससे संबंधित सूचना और आँकड़े का, उसके द्वारा ली गई/ली जानेवाली उधार सुविधा का, उनके संबंध में उसके द्वारा गृहगत/ग्रहण की जानेवाली बाध्यताओं का और उनके निर्माण में उसके द्वारा किए गए व्यतिक्रम का बैंक द्वारा प्रकटीकरण करने हेतु उसकी सहमति है।

b) The Borrower understands that as a pre condition, relating to grant of the loans/advances/ other non-fund-based credit facilities to him the bank, requires his consent for the disclosure by the bank of, information and data relating to him of the credit facility availed of/to be availed, by him, obligations assumed/to be assumed, by him in relation thereto and default, if any, committed by him in discharge thereof.

2) तदनुसार वह एतद्वारा करार करता है और बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी का या किसी एक का प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है :

Accordingly he hereby agrees and gives consent for the disclosure by the bank of all or any such:

क) उससे संबंधित सूचना और आँकड़ा.

a) information and data relating to him.

ख) उसके द्वारा ली गई/ली जानेवाली किसी उधार सुविधा से संबंधित सूचना या आँकड़ा.

b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed by him and

ग) उसकी ऐसी बाध्यता के निर्वहन में उसके द्वारा किया गया व्यतिक्रम, यदि कोई हो.

c) default, if any, committed by him in discharge of his such obligation.

जिसे कि बैंक क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को प्रकट करना और प्रस्तुत करना उपयुक्त और आवश्यक समझे।

as the bank may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency authorised in this behalf by RBI.

Allocha
12/10/12

12/10/12

3) वह यह घोषणा करता है कि :
He declares that it is correct.

4) वह वचन देता है कि :
He undertakes that:

क) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को सूचना आँकड़ा की गई कथित सूचना आँकड़ा

a) the Credit Information Bureau may use, process the said information as deemed fit by them;

ख) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को सूचना आँकड़ा या उनके द्वारा उससे प्राप्त सूचना या पंजीकृत प्रयोक्ता को, जिन्हें प्रस्तुत कर सकेगा।

b) the Credit Information Bureau may furnish for consideration the information prepared by them, to registered users, as may be required.

इसमें या किसी अन्य दस्तावेज में या उधारकर्ता द्वारा किया गया प्रतिसंदाय या गृहगत/ग्रहण की गई रकम बैंक के पूर्ण विवेक पर।
Notwithstanding anything contained in this writing by the Borrower, the recovery of the amount recovered by the Bank towards the absolute discretion of the Bank.

प्रथमतः बैंक द्वारा उपगत खर्चों/व्यय के लिए।
Firstly, towards the reimbursement of the amount recovered by the Bank.

द्वितीयतः बकाया ब्याज के लिए, चाहे वह ब्याज ही हो।
Secondly, towards interest in a sum due to the Bank.

अंतिमतः मूल रकम के लिए।
Lastly, towards the Principal amount.

2) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे यह करार करता है कि बैंक को सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा

निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी के नाम पर सूचना आँकड़ा या प्रकाशित करने का अप्रतिबंधन अथवा प्रतिबंधन।
The Borrower hereby further agrees to give the name of the Borrower or its representative through such medium as the Bank may think fit. The Bank may disclose the said information to the Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Statutory and other Authorities.

बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार के अभाव में उधार लेनेवाले के अनुरोध पर सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा

The Borrower hereby further agrees to give the name of the Borrower or its representative through such medium as the Bank may think fit. The Bank may disclose the said information to the Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Statutory and other Authorities.

बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार के अभाव में उधार लेनेवाले के अनुरोध पर सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा

The Borrower hereby further agrees to give the name of the Borrower or its representative through such medium as the Bank may think fit. The Bank may disclose the said information to the Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Statutory and other Authorities.

बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार के अभाव में उधार लेनेवाले के अनुरोध पर सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा

The Borrower hereby further agrees to give the name of the Borrower or its representative through such medium as the Bank may think fit. The Bank may disclose the said information to the Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Statutory and other Authorities.

बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार के अभाव में उधार लेनेवाले के अनुरोध पर सूचना आँकड़ा या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में सूचना आँकड़ा

The Bank may at its sole discretion make available to the registered users the said information for their interchangeability in pre/paid mode.

Register
1990

3) वह यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को प्रस्तुत सूचना और आंकड़ा सत्य और सही है।
He declares that the information and data furnished by him to the bank are true and correct.

4) वह वचन देता है कि :

He undertakes that:

- क) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस तरह से प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण बैंक द्वारा प्रकट की गई कथित सूचना आंकड़ा का प्रयोग, उनके द्वारा उचित समझी गई रीति से संसाधन कर मकेगा; और
- a) the Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorized may use, process the said information and data disclosed by the bank in the manner as deemed fit by them; and
- ख) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड या ऐसे प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण संसाधित सूचना और आंकड़ा या उनसे द्वारा उससे तैयार किए गए उत्पाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य उधार मंजूकर्ताओं या पंजीकृत प्रयोक्ता को, जिन्हें इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिफल के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।
- b) the Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorized may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors or registered users, as may be specified by the Reserve Bank in this behalf.

इसमें या किसी अन्य दस्तावेज में या उधारकर्ता द्वारा लिखित अनुदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता द्वारा किया गया प्रतिसंदाय या आवधिक ऋण के प्रतिसंदाय के लिए बैंक द्वारा वसूल की गई/प्राप्त की गई/वसूल की गई रकम बैंक के पूर्ण विवेकानुसार निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:

Notwithstanding anything contained herein or in any other documents or instructions in writing by the Borrower, the repayment made by the Borrower or amount realised/received/recovered by the Bank towards repayment of the term loan shall be appropriated at the absolute discretion of the Bank as under:

प्रथमतः बैंक द्वारा उपगत खर्च/व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए.

Firstly, towards the re-imbursement of the cost/expense incurred by the Bank

द्वितीयतः बकाया ब्याज के लिए, चाहे विकलित किया गया हो या नहीं; और

Secondly, towards interest in arrears, whether debited or not, and

अंतिमतः मूल राशि के लिए.

Lastly, towards the Principal amount.

22. उधारकर्ता इसके द्वारा आगे करार करता है कि यदि उधारकर्ता नियत तारीख को उधार सुविधाओं के प्रतिसंदाय में या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम करता है तो बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी के नाम व्यतिक्रम के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे माध्यम की मार्फत, प्रकट करने या प्रकाशित करने का अप्रतिबंध अधिकार होगा जैसा बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे बैंक इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय, निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम या किसी कानूनी/अन्य प्राधिकारी को जिन्हें आवश्यक समझा जाए, अग्रिम देने की बाबत जानकारी उपलब्ध कराएगा।

The Borrower hereby further agrees that in case the Borrower commits default in the repayment of the credit facilities, in the repayment of interest thereon on due date/s, the Bank and/or Reserve Bank of India will have an unqualified right to disclose or publish the name of the Borrower or its Directors/Partners/Proprietor as defaulter in such manner and through such medium as the Bank or Reserve Bank of India in their absolute discretion may think fit. The Bank may as well provide information about the advances to Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Export Credit Guarantee Corporation or any Statutory and other Authorities as may be deemed necessary.

23. बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार से इस करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए संपूर्ण मंजूरी सीमाओं के भीतर उधार लेनेवाले के अनुरोध पर, उधार लेनेवाले की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बिक्री-पूर्व/बिक्री पश्चात् सीमाओं में पारस्परिक अदला-बदली कर सकेगा।

The Bank may at its sole discretion, subject to the terms and conditions of this agreement, make available to the borrower at his request, within the overall sanction limits, interchangeability in pre/post sales limits to suit his specific needs of the borrower.

FOR SYNDICATE BANK

भारतीय रिजर्व बैंक / Br. Manager
जि. 10003 / Z.P. Aligarh

[Handwritten Signature]

अनुसूची - I (निर्माण विवरण)
SCHEDULE - I (RELEASE PARTICULARS)

सुविधा का स्वरूप Nature of facility	सीमा (रुपए) Limit (Rupees)	व्याज दर Rate of Interest	प्रतिभूति का मार्जिन Margin of Security	उधारकर्ता के शेयरों/डिबेंचर्स का बंधन Borrower's Shares/Debtures/Bonds
1. ओवरड्राफ्ट खाता (खोला जानेवाला) Overdraft a/c (To be opened)			निर्धारित सीमा/आहरण शक्ति तक खाते के परिचालन द्वारा By operation of account upto the limit /drawing power fixed	क्रम सं. / Sl. No. कंपनी का नाम / Name of the Co. लेजर फोलियो / Ledger folio
2. अन्य सुविधाएं Other facilities				

अनुसूची - II (प्रतिसंदाय अनुसूची)
SCHEDULE - II (REPAYMENT SCHEDULE)

ओ.डी./नकदी उधार के मामले में निर्धारित मौजूदा सीमा/आहरण शक्ति तक तत्परता से परिचालन करते हुए और वर्ष में कम से कम एक बार जमा की स्थिति में लाते हुए और एक वर्ष की समाप्ति पर बंद करते हुए।
 For OD/Cash Credit, by operating it briskly to the extent of limit/drawing power fixed and bringing it to credit at least once a year and closing it in time by the end of one year.

निम्नलिखित अन्य सुविधाओं के प्रतिसंदाय हेतु
 For other facilities repayable as under:

Principal sum of Rs. 50000 with interest due thereon will be repaid in 60 monthly instalments of Rs. 339.3 each commencing from 31/5/09. Subsequent EMIs shall be due on 1st day of each ensuing month. Loan amount with interest will be repaid in full & final settlement on or before 30/4/2014.

(उधारकर्ता के शेयरों/डिबेंचर्स का बंधन)

क्रम सं. / Sl. No.	कंपनी का नाम / Name of the Co.	लेजर फोलियो / Ledger folio

उधार लेने वाले के सभी विद्यमान शेयर, गुडविल, अधिकार और आस्तिवस्तु जैसा कि आवधिक उधार की बाबत बैंक को सम्यक प्रतिकार प्रदान करने के लिए इस त्राण/ओवरड्राफ्ट को लागू है।
 All the Borrower's present and future contracts, securities, investments and other assets shall be pledged to the Bank at any time on demand and shall be agreed in respect of the terms and conditions including all costs.

The rules governing this overdraft shall be governed by the rules of the Bank and the Borrower shall be bound by the rules of the Bank and shall give notice to me.

इस विलेख की अंतर्वस्तु, राशि का ब्यौता कर दी गयी है तथा मेरे द्वारा

The contents of this document are known to me and admitted to be true.

एक से अधिक व्यक्तियों या किसी एक व्यक्ति की लिंग भी शामिल है।

Reference to singular gender includes female gender.

इसके साक्ष्यस्वरूप उधारकर्ता

In witness whereof the Borrower

on the 24 day of ...

Attorney
 [Signature]
 [Stamp]

[Signature]

ध्यान दें: दो पार्श्वों में से एक को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
 Note: In the event of two copies, one should be treated as original.

अनुसूची - III
SCHEDULE - III

Rs 20

प्रतिभूति का मार्जिन
Margin of Security

(उधारकर्ता के शेयरों/डिबेंचरों/बांड/व्यक्ति ऋण/सावधि जमा (सीमेंट)/बीमा प्रालिनी की सूची जो बैंक को
परिदत्त की गई)
List of Shares/Debentures/Bonds, LIC Policies, Term Deposits, Book Debts etc., belonging to
Borrower and delivered to the Bank)

निर्धारित सीमा/आहरण शक्ति
तक खाते के परिचालन द्वारा
By operation of account upto
the limit /drawing power fixed

क्र. सं. Sl. No.	कंपनी का नाम Name of the Co.	लेजर फॉलियो Ledger folio	सुविधित प्रमाण पत्र सं. Distinct Certificate No.	शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की संख्या No. of Shares/ Debentures/ bonds No.	स्क्रिप्स की सं. No. of Scrips	अंकित मूल्य Face Value (₹.) (Rs.)	बाजार मूल्य Market Value (₹.) (Rs.)

उधार लेने वाले के सभी विद्यमान और भावी बही-त्राण, बकाया धन, वसूलियाँ दावे, बिल, संविधाएँ, प्रतिभूतियाँ, शेयर, गुडविल, अधिभार और आस्तियाँ निराली भी समय माँग किए जाने पर विभिन्न खातों में कुल बकाया रकम और किन्तों जैसा कि आवश्यक उधार की बाबत करार किया गया हो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित दर पर ब्याज सहित, जिसके अंतर्गत भी खर्चों भी हैं, बैंक को सम्यक प्रतिसंदाय करने के लिए प्रतिभूति के रूप में हैं।

इस ऋण/ओवरड्राफ्ट को लागू होने वाले नियम मुझे स्पष्ट कर दिए गए हैं और मैं, मुझे कोई और सूचना दिए बिना, इस नियम प्रवृत्त और समय-समय पर यथा संशोधित बैंक के नियमों से आबद्ध होने के लिए इसके द्वारा सहमत हूँ।

All the Borrower's present and future book debts, outstanding monies, receivables, claims, bills, contracts, securities, investments, goodwill, rights, and assets as security for due repayment to the bank at any time on demand the total balance outstanding in the various accounts and in instalments agreed in respect of the term loan account along with the interest at the rate hereinafter provided including all costs.

The rules governing this loan/overdraft have been explained to me and I hereby agree to be bound by the rules of the Bank now in force and as amended from time to time, without any further notice to me.

इस विलेख की अंतर्वस्तु, सम्यक्तः भरे जाने के पश्चात्, मुझे पढ़ कर सुना दी गई है और मुझे ज्ञात भाषा में उसकी व्याख्या कर दी गयी है तथा मेरे द्वारा सही और सत्य स्वीकार कर ली गई है।

The contents of this deed, after duly filled in, have been read over and interpreted in a language known to me and admitted by me to be true and correct.

एक से अधिक व्यक्तियों या किसी निकाय द्वारा निष्पादित किए जाने की स्थिति में एकवचन का संदर्भ बहुवचन से है और पुल्लिंग स्त्री लिंग भी शामिल है।

Reference to singular includes plural if executed by more than one person or a body and male gender includes female gender.

इसके साक्षररूप उधारकर्ता ने तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

In witness whereof the Borrower has signed this agreement at 20/04/2019

on the 24 day of April (month) 2019 (year).

Ats Ch...
For SYNDICATE BANK
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
उधारकर्ता/Borrower

ध्यान दें : दो पाठों में अंतर होने पर अंग्रेजी पाठ को अधिक प्रामाणिक पाठ माना जाएगा और यह हिन्दी पाठ पर अभिभावी होगा।
Note : In the event of the discrepancy between two versions, the English version would be treated as an authentic one and prevail over the Hindi version.

ऋण का प्रयोजन/PURPOSE OF LOAN: *Domestic needs*



P 702765

Ref 98

Attached with
 कृपया सिंडिकेट बैंक
 FOR SYNDICATE BANK
 शाखा प्रबन्धक/Br. Manager
 सि.प. अलीगढ़ / Z.P. Aligarh

This MIS is Part and Parcel of
 ASD/... 3 ... for Rs. 15000
 dated 24/4/08 ... submitted by
 Mr. J. B. Ahmed ... as Borrower

J. B. Ahmed

R-967-98

स्ताव nt al	उपयोजन का प्रयोजन/PURPOSE OF LOAN: <u>Domestic needs</u>
क्रण का प्रकार/TYFE OF LOAN:	<u>DL</u>
आवेदित ऋण की रकम: रु. AMOUNT OF LOAN REQUESTED: Rs. <u>150000</u>	अपेक्षित चुकोती अवधि REPAYMENT PERIOD SOUGHT: <u>3393</u> श.मा. किस्ते EMIS <u>6017</u>
(आवेदक से संबंधित नहीं)/(Not Related to Applicant)	(आवेदक से संबंधित)/(Related to Applicant)
नाम/Name:	नाम/Name:
पता/Address:	पता/Address:

470

मुकुंश कुमार शर्मा
22-9-89
संस्था बैंक का नाम
को भेजने की अवधि 20/3

(Signature)

(Signature)

Date: आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant प्रत्याभूतिदाता/प्रतिभू के हस्ताक्षर/Signature of Guarantor/Surety

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं और आवेदन-पत्र में शिष्टित समस्त विवरण और सूचना सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई सूचना विधायित/छुपाई नहीं गई है। मैं/हमने आवेदन-पत्र और प्रोशर को पढ़ लिया है और मैं/हम रिडिकेट बैंक से वित्त सुविधा प्राप्त करने संबंधी सभी निबंधनों और शर्तों से अवगत हूँ/हैं। मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध न तो दिवाले की कोई कार्यवाही है न ही मुझे/हमें कभी दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है। मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि इस ऋण की मंजूरी बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है और निर्मोचन बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किए जाने पर निर्भर करता है। मैं/हम रिडिकेट बैंक को उधार के संबंध में ऐसी जांच-पड़ताल करने के लिए, जिसे वह अपने अनन्य विवेकाधिकार से आवश्यक समझे, प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और उधार का मूल्यांकन करने/साझेदारी करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी या उपलब्ध कोई अन्य सूचना, अभिलेख को निरुक्त करने के लिए भी बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम आगे करार करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा ऋण सिडिकेट बैंक द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त नियमों द्वारा शासित होगा। समस्त ऋण बैंक के अनन्य विवेकाधिकार के अधीन है।

I/We declare that I am/we are citizen/s of India and all the particulars and information given in the Application Form is true, correct and complete and no information has been withheld/suppressed. I/We have read the application form and brochures and am/are aware of all terms and conditions of availing finance from Syndicate Bank. I/We confirm that I/we have no insolvency proceedings against me/us nor have I/we ever been adjudicated insolvent. I/We understand that the sanction of this loan is at the discretion of the bank and release is upon my/our executing necessary document/s and other formalities as required by the bank. I/We authorise Syndicate Bank to conduct such credit checks as it considers necessary in its sole discretion and also authorise the bank to release such or any other information available, records for the purpose of credit appraisal/sharing or for any other purpose. I/We further agree that my/our loan shall be governed by the rules of Syndicate Bank which shall be in force from time to time. All loans are at the sole discretion of the Bank.

Attesting Manager
For SYNDICATE BANK
शाखा प्रबन्धक/Branch Manager
जि.ए. अलीगढ़ / J.P. Aligarh
23/4/01

(Signature)
आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant

संबंधित पत्र
साथ प्रस्तुत
एवं आनेवाले
दस्तावेज
documents
to be
submitted
along with
the
Application

- नवीनतम आय कर विवरणी या फार्म नं. 16 या नियुक्ता द्वारा निर्गत वेतन प्रमाण-पत्र।
Copy of latest Income Tax Return or Form No. 16 or Salary Certificate issued by the employer.
- उपार्जन/कटौतियों को दर्शाते हुए मासिक वेतन विवरण/पर्ची के ब्यौरे।
Details of monthly salary statement/slip showing earnings/deductions (in the absence of salary certificate).
- पहचान का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक):
Proof of Identity (any one of the following):

क) नियुक्ता द्वारा निर्गत कर्मचारी पहचान पत्र a) Staff identity card issued by employer	घ) ड्राइविंग लाइसेंस d) Driving licence
ख) आयकर-स्थायी लेखा संख्या, फोटो सहित b) IT-PAN with photo	ङ) रक्षा कर्मियों के मामले में विशेष पहचान पत्र, संख्या सहित e) In case of defence personnel, special identity with No.
ग) मतदाता पहचान पत्र g) Voters Identity card	च) पासपोर्ट c) Passport
- खरीदे जानेवाले टिकाऊ उपभोक्ता सामान के ब्यौरे, व्यापारी के नाम सहित।
Details of durables to be purchased including name of the dealer.

टिप्पणी : क) नए मोटर वाहन के मामले में मेक, मॉडल, बीजक प्रोफार्मा और व्यापारी का नाम दिया जाना है। पुराने वाहनों के मामले में मूल्यांकन प्रमाण पत्र, बेचनेवाले का नाम।

Note : a) For new Automobile Loans, Make, Model, Proforma Invoice & Dealer's Name are to be submitted. For old Vehicles, Valuation Certificate, Seller's Name.

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन पत्र हर दृष्टि से पूर्ण है और उसके साथ हाल ही में लिया गया फोटोग्राफ और सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।
Please ensure that the application is complete in all respects with a recent photograph and all necessary documents.

वैयक्तिक बैंकिंग योजनाओं के अधीन अग्रिमों के लिए प्रक्रिया टिप्पण
PROCESS NOTE FOR ADVANCES UNDER PERSONAL BANKING SCHEMES

उधारकर्ता का नाम / NAME OF THE BORROWER: MehTab Ahmad आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख / Date of Receipt of Application: 23/4/09

क्या मौजूदा ग्राहक है या नया / WHETHER EXISTING OR NEW CUSTOMER: NEW CUST

यदि नया ग्राहक है तो वर्तमान बैंकर का नाम और हमारे बैंक से सुविधा प्राप्त करने की वजह / IF NEW, THE NAME OF PRESENT BANKER AND THE REASON FOR AVAILING THE FACILITY FROM US: _____

यदि मौजूदा ग्राहक है तो लेन-देन का स्वरूप और क्या वह संतोषजनक है / IF EXISTING CUSTOMER, NATURE OF DEALINGS AND WHETHER THEY ARE SATISFACTORY: B

किस योजना के अधीन सुविधा के लिए आवेदन किया गया है और किस शाखा परिपत्र के अधीन सुविधा पर विचार किया जाना है। यदि छूट दी जानी हो तो उसकी संदर्भ संख्या / NAME OF THE SCHEME UNDER WHICH THE FACILITY IS APPLIED FOR AND BC CIR. NO. UNDER WHICH THE FACILITY IS CONSIDERED IN CASE RELAXATIONS ARE PERMITTED THE REFERENCE NC. THEREOF: _____

आवेदित रकम: ₹. / AMOUNT APPLIED: Rs. 150000 किस्त राशि: ₹. / AMT. OF INSTALMENT 3393

आवेदित रकम: ₹. / AMOUNT APPLIED: Rs. 150000 ई.एम.आइ. की सं. / NO. OF EMIS: 60M

पात्रावली: ₹. / ELIGIBLE FINANCE: Rs. 150000 किस्त की राशि ₹. / AMOUNT OF INSTALMENT: Rs. 3393

उधारकर्ता की कुल आय: ₹. / TOTAL INCOME OF THE BORROWER: Rs. 41080 कुल कटौती: ₹. / TOTAL CUTBACK: Rs. 11573

क्या कुल कटौती बैंक द्वारा निर्धारित मानक के भीतर है: YES हां/नहीं YES/NO

क्या वेतन शाखा में जमा होता है? / WHETHER THE SALARY IS CREDITED AT THE BRANCH? YES

यदि नहीं, तो क्या नियोक्ता से वचन पत्र लिया गया है: NO

उधारकर्ता की शुद्ध मालियत: / NET WORTH OF THE BORROWER: 1000000

प्रत्याभूतिदाता का नाम और उसकी शुद्ध मालियत: / NAME OF THE GUARANTOR AND NET WORTH: Jyoti Prasad Karmayap

प्रतिभूति के ब्यौरे: / PARTICULARS OF SECURITY: clean

क्या योजना पर लागू सभी नियमों और मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है? / WHETHER ALL THE RULES & EXANT GUIDELINES APPLICABLE TO THE SCHEME ARE COMPLIED WITH? YES

सिफारिश / RECOMMENDATIONS

सुविधा का स्वरूप / Nature of Facility	रकम / Amount	व्याज दर / Rate of Interest	मासिक किस्त / Monthly Instalment	प्रतिभूति / Securities	प्रत्याभूतिदाता / Guarantors
<u>DL</u>	<u>150000</u>	<u>PLR 11.75</u>	<u>3393</u>	<u>clean</u>	<u>Jyoti Prasad Karmayap</u>

Rpoan
 प्रबंधक/व.शा. प्रबंधक/मु.प्र./स.म.प्र./MANAGER/SR. BR. MANAGER/CM/AGM

संजूरीदाता प्राधिकारी के प्रयोग के लिए / FOR USE OF SANCTIONING AUTHORITY

तारीख / DATE: 23/4/09 प्रबंधक/व.शा. प्रबंधक/मु.प्र./स.म.प्र./MANAGER/SR. BR. MANAGER/CM/AGM

सुविधि-पश्चात् पुष्टि / POST-SANCTION CONFIRMATION

उधारकर्ता और प्रत्याभूतिदाता से उचित प्रलेख प्राप्त किए गए हैं। / BORROWER DOCUMENTATION HAS BEEN OBTAINED FROM BORROWER AND GUARANTOR.

ऋण विनिर्देशित: निर्मोचित किया गया है, जहाँ कहीं लागू होता हो। / LOAN IS UNENCUMBERED SPECIFICALLY WHEREVER APPLICABLE.

व्याज दर को सही-सही प्रयोग किया गया है। / INTEREST RATE IS CORRECTLY APPLIED.

मार्जिन अपेक्षाओं का पालन किया गया है (जहाँ कहीं लागू होता हो)। / MARGIN REQUIREMENTS ARE COMPLIED WITH (WHERE APPLICABLE).

परि. 198/2008.शा.प. के अनुसार सेवा प्रभावों की वसूली की गई है। / SERVICE CHARGES COLLECTED AS PER CIR. 198/2008/BC.

Rpoan
 प्रबंधक/व.शा. प्रबंधक/मु.प्र./स.म.प्र./MANAGER/SR. BR. MANAGER/CM/AGM

तारीख / Date: 23/4/09

निबंधक कार्यालय के प्रयोग के लिए / FOR USE AT CONTROLLING OFFICE:

Handwritten signatures and notes on the left margin.

Large handwritten '15' with arrows pointing to the interest rate and service charges sections.

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar
High Court of Judicature at
Allahabad.

Refer-98

To,

The District Judge
Allahabad.

187

No. 15794 / IV- 2412 / Admin (A) / Dated 09-10-2012

Subject: - Information regarding purchase of new Maruti Alto car by Sri Mahtab Ahmad, the then Additional District Judge, Aligarh presently posted at Allahabad.

Sir,

With reference to endt. no. 698/I-Civil dated 16.04.2012 of the District Judge, Aligarh on the above subject, I have to say that Sri Mahtab Ahmad, Additional District Judge, Allahabad may kindly be asked to furnish copy of arrangement letter of Personal Loan of Rs. 1,50,000/- taken from Syndicate Bank, Aligarh, showing terms & conditions of repayment of loan. He may also be asked to clarify as to why he has submitted information about purchase of the car so late i.e. after about three years.

D.R.(N)
May issue?
HM
25/09/12
25.09.12
25.09.12
25.09.12

Yours faithfully

Maharani D
5-X-12

Deputy Registrar

No. 15795 / IV- 2412 / Admin (A) / Dated 09-10-2012

188

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Mahtab Ahmad, Additional District Judge, Allahabad.

Maharani D
5-X-12
Deputy Registrar

16-4-12
23-4-12

Sent
23-4-12
Encl-(15)

6358
IV/24/12
174
26/4/12

23/4/12

From: Mahtab Ahmad,
Additional District Judge,
Court No. 11,
Aligarh.

16-4-12
R 98798

Office of the Distt Judge Aligarh
17698 I-civil D. 16-4-12

FORWARDED

District Judge
Aligarh
16-4-12

1556
20-4-12 To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at,
Allahabad.

Seen by Hon'ble Justice
Sanjay Misra on 06/12/12

Through: The District Judge,
Aligarh.

Subject : Information regarding Purchase of Motor Car Maruti
ALTO LXI.

15
S. Ahmad
21-4-12

Respected Sir,

It is most respectfully submitted that, I have purchased Maruti
ALTO Car LXI by advance taken from Hon'ble High Court and
Personal Loan from Syndicate Bank Zilapanchayat Branch, Aligarh.

Information is being sent for your honor's kind perusal.
with regards.

Date: 16.04.2012

Your's Faithfully
(MAHTAB AHMAD)
Addl. Distt. & Sess. Judge
Court No.-11, Aligarh

JRCM

Cont.....2

withdwl 15 Page
↓

S. Ahmad
24.09.12

15-4-12

R-25798

Enclosures:

1. Information on prescribed Performa.
2. Photo copy of Advance Sanction order by the Hon'ble High Court.
3. Photo copy of pass book A/c No. 86202010023825 Syndicate Bank Zila Panchayat, Aligarh in which personal Loan of Rs 1,50,000/- drawn and transfered to A/c No. 30649701303 of S.B.I, Samad Road, Aligarh.
4. Photo copy of A/c No. 30649701303 S.B.I. Samad Road, Aligarh.
5. Photo copy of Cheque of Rs. 2,71,000/- on S.B.I, Aligarh.
6. Photo copy of D.D.
7. Photo copy of Sale invoice .
8. Photo copy of Reg. No. of Car.
9. Pledge Letter to Hon'ble High Court.

Mahtab Ahmad
16/12/12

Mahtab Ahmad
Addl Dist. & Sessions Judge
Aligarh (U.P.)

Handwritten signature/initials: H. 9/10/08

Handwritten text: 24/7/08-1

**INFORMATION REGARDING PURCHASE OF NEW MOTOR CAR-
ALTO LXI ON 06-05-2009 BY MAHTAB AHMAD ADDITIONAL
DISTRICT JUDGE, COURT NO. 11 ALIGARH**

1.	Date of Joining of Service	30-10-1986 as UDA in U.P. Secretariat, Lucknow, 13-06-1990 in Judicial Service.
2.	Present gross salary and Take home salary	Gross salary Rs. 42965/- Taken Home salary Rs. 31325/- (On the date of purchase)
3.	Details of purchase (moveable property exceeding to value Rs. 10,000/- and immovable property) made by him earlier with complete details, date of purchase amount spent etc.	Generator portable Birla Yamaha Rs. 18500/- on date 07-09-2001. Source:- Salary Information was sent to the Hon'ble High Court under the endorsement of District Judge Balia No. 3553/XV dated 15-07-2002 (On the date of purchase)* 1500 Sq. Ft. Abadi Plot Acquired from Mster Sahakari Samiti, Khurram Nagar, Lucknow, Pargana-Lucknow Tehsil-Bakshi Ka Talab on 24.06.2008. purchased price Rs. 105000.00. Requisite information of purchase has been sent to Hon'ble High Court under the Endorsement No. 535/08/Prasha. J.P. Nagar Dated 07.01.08 and under the Endorsement No. 609/2008/Prasha/J.P. Nagar dated 16.12.08 of D.J. J.P. Nagar. (on the date of purchase)
4.	If any advance or loan taken from the High Court, its amount and in what manner the loan will be repaid namely, the number of installments, its amount and till what date the deduction will be made etc.	Motor Car advance of Rs. 2,50,000/- from Hon'ble High Court. Sanctioned on 23-03-2009. Installment:-Rs. 3510/108, per month March 2018.
5.	If any loan taken from Bank etc. details of amount, mode of repayment, period of deduction number and amount of installment etc.	Rs. 1,50,000/- personal loan from Syndicate Bank, Zila Panchayat Branch, Aligarh. Installment Rs. 3443.00 per month on 24.04.09 No. 86207170011571. Drawn in A/c 86202010023825 and Rs. 130000/- transferred in A/c No. 30649701309 S.B.I. Aligarh from which payment was made by cheque.
6.	Regarding purchase of a second hand car name of the vehicle, its model, cost price etc, date of the 1st purchase (month and year) or vehicle from car dealer to the first purchase and a copy of the insurance policy showing the amount for which the vehicle was insured prior to its purchase by the officer.	Not applicable

Contd....2

29/1/12

(2)

7.	Details of Property	Maruti Alto, LXI Car Registration No. U.P.81AB3727. Price Rs. 2,71000/-
8.	Name & full address of the dealers/sellers	Auto Links Pvt. Ltd. (Authorized Maruti Dealer) A-1019, Site-3, Industrial Area, Meerut Raod, Ghaziabad.
9.	Whether the dealer is regular and reputed one.	Yes
10.	Whether the judicial officer is related to the seller in any way and whether any case against the seller is pending in or decided by the judicial officer.	No
11.	Details of source of amount with papers in support thereof.	1. Rs. 2,50,000/- Car advance from Hon'ble High Court. 2. Remaining amount as personal loan from Syndicate Bank, Zila Panchayat Branch, Aligarh. (Papers annexed)

Date:

Mahtab Ahmad
16/1/2012
(MAHTAB AHMAD)
Addl. Distt. & Sess. Judge
Court No.-11 Aligarh

आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 246 सपटित राजाज्ञा संख्या वी-3-2343(2)/दस-2008-20(12)/08, नो0 वा0 - दिनांक 07.08.2008 के अर्न्तगत श्री महुताय अहमद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ को रु 2,50,000/- (रु0 दो लाख पचास हजार मात्र) का मोटर कार अग्रिम कार खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है:-

- (1) अग्रिम की धनराशि दिनांक 31.03.2009 को या उसके पूर्व अवश्य ही आहरित कर ली जाए।
- (2) अग्रिम को आहरित करने के लिये बिल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध पत्र (फार्म नं0 25-ए) भरकर सीधे इस न्यायालय को भेजा जाये। तदुपरोक्त मोटर कार कय किया जाये और अनुबन्ध पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर फार्म - 25 पर बंधक पत्र भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को भेजा जाए।
- (3) यदि मोटर कार का वास्तविक मूल्य अग्रिम की धनराशि से कम हो तो बची हुई धनराशि शीघ्र कोषागार में वापस कर दी जाय।
- (4) अग्रिम पर 10.00 प्रतिशत व्याज लिया जायेगा परन्तु यदि भविष्य में शासन द्वारा व्याज दर में परिवर्तित कर उसमें कोई वृद्धि की जाती है तो परिवर्तित बची हुई व्याज दर लागू होगी।
- (5) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245 (डी) में दिये गये नियमों एवं राजाज्ञा संख्या वी-3-1808 (2)/दस-2008 दिनांक 23 जून 2008 के नियमानुसार अग्रिम की कटौती श्री अहमद के वेतन से 108 मासिक किस्तों (ई0 एम0 आई0-इक्वेटेड मन्थली इन्स्टालमेंट) में रूपया 3520/-की दर से वसूल की जायेगी जिसमें मूलधन एवं व्याज की कटौती सम्मिलित है।
- (6) अग्रिम का प्रयोग किराया कय पद्धति के आधार पर या किस्तों पर मोटर कार खरीदने में नहीं किया जायेगा।
- (7) मोटर कार खरीद जाने के एक माह के अन्दर उसका कंप्रेहिन्सव इन्सोरन्स करा दिया जाय और संबंधित बीमा पालिसी का नवीनीकरण कराकर उस समय तक चालू रखा जाय जब तक अग्रिम का पूर्ण रूप से मुगतान न कर दिया

R 2798

आय। बीमा के सहित में अन्य प्रमाणक मोटर कार के मूल्य के प्रमाणक तथा बची हुई शरणाशि यदि कोई हो तो शासन को लौटाने की तिथि की सूचना के साथ न्यायालय को भेजी जाये।

- (8) शासन / न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अथवा स्पेसिफिक सेवा नियुक्ति को प्राप्त करने पर शरणाशि व्याज सहित एक मुकदमे में लया जाएगा।
- (9) व्याज का आगमन राजाज्ञा संख्या बी-3-1808 (2)/दस-2008 दिनांक 23 जून 2008 में दिये गये संलग्नक के अनुसार किया जाएगा।
- (10) इस अधिन के सम्बन्ध के व्यय को वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या -61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि - आयोजनभार - 202 - मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम -03 - राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन कय करने के लिए अग्रिम -30 निवेश / ऋण के नामे लिखा जाना चाहिए।
- (11) प्रतिमाह व्याज लेखाशीर्ष 0049- व्याज प्राप्तियां -04- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की व्याज प्राप्तियां - 800 - अन्य प्राप्तियां - 02 -सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर व्याज -02 - मोटर वाहन के लिए अग्रिम में तथा मूलधन की राशि लेखाशीर्ष 7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज -202- मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम -01- मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम में जमा की जाएगी।

दिनांक 23 मार्च 2009

महाभित्तक 27/3/09

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

Ac. 10/03/09

REGISTERED

24/3/09

Section Officer
High Court
Allahabad

27/3/09

संलग्नक-3

Report

तारीख Date	विवरण Particulars	चेक संख्या Cheque No.	निकाली गयी रकम Withdrawals	जमा की गयी रकम Deposits	शेष Balance
24/04/2009	BY TR 86207170011571			148896.00	148896.00
24/04/2009	RTGS DR-SYNDH100114095662		130000.00		18,896.00
24/04/2009	service charge reversed			454.00	19,350.00
24/04/2009	rtgs cgs		30.00		19,320.00
30/06/2009	Drawdown 86207170011571		3443.42		15,876.58
22/06/2009	988544		10,000.00		5,876.58
30/06/2009	970073		3,500.00		2,376.58
30/06/2009	Drawdown 86207170011571		2,376.58		0.00
10/07/2009	OCC Data Entry 0000003330 000333017			1,000.00	1,000.00
10/07/2009	OCC Data Entry 0000003330 00033302E			2,000.00	3,000.00
14/07/2009	COMM ON COLLECTION OF 000333017		57.00		2,943.00
14/07/2009	COMM ON COLLECTION OF 00033302E		57.00		2,886.00
14/07/2009	SB SC FOR OVERDRAWAL		17.00		2,869.00
14/07/2009	SB SC FOR OVERDRAWAL		17.00		2,852.00
14/07/2009	Drawdown 86207170011571		1,071.84		1,780.16
31/07/2009	Drawdown 86207170011571		1,780.16		0.00

12/08/2009	BY CLG SBI	00065007C		8,782.00	8,782.00
17/08/2009	Drawdown 86207170011571		1,631.45		7,150.55
31/08/2009	Drawdown 86207170011571		3,406.61		3,743.94
29/09/2009	Drawdown 86207170011571		3,406.61		337.33
29/09/2009	SB MIN BAL CHGS		33.00		304.33
29/09/2009	Credit Interest Capitalis			47.18	351.51
29/10/2009	970054		3,500.00		-3,148.49
29/10/2009	SB SC FOR OVERDRAWAL		17.00		-3,165.49
31/10/2009	BY CLG SBI	00066059E		35,001.00	31,835.51
31/10/2009	BY CLG SBI	00065042E		4,950.00	36,785.51
31/10/2009	Drawdown 86207170011571		1,784.51		35,001.00
31/10/2009	Debit Interest Capitalize		10.00		34,991.00
03/11/2009	970055		20,000.00		14,991.00
03/11/2009	SB SC FOR OVERDRAWAL		17.00		14,974.00
04/11/2009	Drawdown 86207170011571		1,627.10		13,346.90
05/11/2009	SB MIN BAL CHGS		33.00		13,313.90
12/11/2009	970072		5,000.00		8,313.90
13/11/2009	630757		5,000.00		3,313.90

Please Turn Over



शाखा / BRANCH : ZILA PANCHAYAT ALIGARH

वचत बैंक खाता सं./ SAVINGS BANK A/c. NO. : 86202010023825

नाम / NAME/S : Mr. MEHTAB AHMED

पता / ADDRESS : J 29 JUDGE COMPOUND MAL KHAN
NAGAR ADFJ 2ND CML COURT
ALIGARH , 202001
U P
INDIA

अलिगढ़ नक 4

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/DW/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

30/01/2009 2617021 604
ALIGARH (604)
SAMAD ROAD (2404599)
Mode of Operation : SINGLE
Nom.Reg No :
Date of Issue: 30/01/2009

रिपॉजिट

Mr. MAHTAB AHMAD

29 JUDGES COMPOUND
CIVIL LINES ALIGARH
ALIGARH 202001
ALIGARH

30649701303


शाखा प्रबंधक
Branch Manager

Carried Forward

3225.00Cr

Registers

(Control: 2617021 604 30649701303 30/01/09)

28/01/09 CSH DEP

500.00

500.00Cr

29/01/09 MCC ISSUE

60.00

440.00Cr

Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 440.00 Cr;+MOD BAL: 440.00Cr

(Control: 3211398 604 30649701303 12/02/09)

Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 440.00 Cr;+MOD BAL: 440.00Cr

(Control: 3211398 604 30649701303 13/02/09)

12/02/09 GT

538976288

66514.00

66954.00Cr

12/02/09 CAS CASH CHEQUE

79366

30000.00

36954.00Cr

Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 36954.00 Cr;+MOD BAL: 36954.00Cr

(Control: 3211398 604 30649701303 23/03/09)

21/02/09 CAS CASH CHEQUE

79367

5000.00

31954.00Cr

28/02/09 DR THRU CHQ

79368

24000.00

7598.00Cr

12/03/09 GT

538976288

24573.00

32171.00Cr

22/03/09 CSH DEP

20000.00

52171.00Cr

22/03/09 INTER BRCH FEE

40.00

52131.00Cr

Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 52131.00 Cr;+MOD BAL: 52131.00Cr

(Control: 3211398 604 30649701303 02/04/09)

23/03/09 CAS CASH CHEQUE

79371

2000.00

50131.00Cr

24/03/09 DR THRU CHQ

79369

10000.00

40131.00Cr

26/03/09 DR THRU CHQ

79370

10000.00

30131.00Cr

29/03/09 GT

538976288

1916.00

32047.00Cr

30/03/09 CAS CASH CHEQUE

79373

10000.00

22047.00Cr

31/03/09 GT

538976288

25000.00

272047.00Cr

Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 272047.00 Cr;+MOD BAL: 272047.00Cr

(Control: 3211398 604 30649701303 15/04/09)

02/04/09 DR THRU CHQ

79374

23090.00

248957.00Cr

04/04/09 CAS CASH CHEQUE

79375

10000.00

238957.00Cr

Carried Forward

238957.00Cr

Report

Brought Forward 562.00 Brought Forward 238957.00Cr
 Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 234607.00 Cr; +MOD BAL: 234607.00Cr
 (Control: 3211398 604 30649701303 28/04/09)
 15/04/09 DR THRU CHQ 79377 3000.00 234607.00Cr
 15/04/09 CAS CASH CHEQUE 79378 10000.00 224607.00Cr
 15/04/09 GT 538976288 32960.00 257567.00Cr
 18/04/09 CAS CASH CHEQUE 79379 10000.00 247567.00Cr
 ✓ 24/04/09 SYNBH09114095662 130000.00 377567.00Cr
 TRF FRM 099826044309
 28/04/09 CAS CASH CHEQUE 79380 2000.00 375567.00Cr
 28/04/09 MCC ISSUE 60.00 375507.00Cr
 Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 375507.00 Cr; +MOD BAL: 375507.00Cr
 (Control: 3211398 604 30649701303 04/05/09)

✓ 01/05/09 REMT THRU CHQ 79382 271678.00 103829.00Cr
 Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 103829.00 Cr; +MOD BAL: 103829.00Cr
 (Control: 3211398 604 30649701303 29/05/09)
 04/05/09 CAS CASH CHEQUE 79383 15000.00 88829.00Cr
 05/05/09 GT 538976288 31325.00 120154.00Cr
 14/05/09 CAS CASH CHEQUE 79384 10000.00 110154.00Cr
 21/05/09 CAS CASH CHEQUE 79385 8000.00 102154.00Cr
 ✓ 26/05/09 DR THRU CHQ 102946 18750.00 83404.00Cr
 Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 83404.00 Cr; +MOD BAL: 83404.00Cr
 (Control: 3205118 604 30649701303 06/06/09)
 01/06/09 CAS CASH CHEQUE 102948 15000.00 68404.00Cr
 02/06/09 GT 538976288 31325.00 99729.00Cr
 04/06/09 CAS CASH CHEQUE 102949 5000.00 94729.00Cr
 Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 94729.00 Cr; +MOD BAL: 94729.00Cr

R-47990

₹ 2,71,000/-

Account No.

MULTI CURRENCY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

दिनांक / Date 29.4.09

PAY Regent Auto Links (Pvt.) Gaziabad.

या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Two Lacs Seventy one thousand only


₹. Rs. 2,71,000/-

अदा करें

NOTCH SECURITY PRINTERS 2008

खा.सं.
A/c. No. **MSB 30649701303**

VALID FOR RS. 50,000 & UNDER

 भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

IFS Code: SBIN0000604

(00604) ALIGARH
SAMAD ROAD
DIST:ALIGARH,
UT

Prefix :
0523500001

Mahtab Ahmad
29/4/09
SHRI MAHTAB AHMAD

⑈07938⑈ 20200200⑈ 002199⑈ 3⑈

ही. प्र. नं. 6

Reg 0098

यह चक्र सुरक्षा मुद्रा होने पर ही वैध है। केवल इस महीने के लिये ही वैध है।
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED. VALID FOR SIX MONTHS ONLY.
इसने कम्प्यूटर प्रिन्ट किया है।
ISSUING BRANCH: Tel No.: 571 - 240459.

₹. 50,000 से अधिक के लिखत को अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENT FOR ₹. 50,000 AND OVER IS VALID ONLY WHEN SIGNED BY TWO OFFICERS

सी. डी. कोड नं.
KEY : 0 00601

DATE
01/05/2009

MARKS SECURITY PRINTERS, DELHI, INDIA

भुगतान करने पर ON DEMAND PAY REGENT AUTOLINKS PVT LTD. GHATAKABAD*****
*****REGENT AUTOLINKS PVT LTD. GHATAKABAD*****

या इसके आदेश पर OR ORDER

इसके रुपये RUPEES
ND/TL
ND/OL
ND/TL

TWO	SEVEN	ONE	ZERO	ZERO	ZERO
LAKHS	T THSD	THSDS	HNDRS	TENS	UNITS

₹. Rs. 2 7 1 0 0 0 Ps00

AMOUNT BELOW 271001 (2/6)

PAISE ZERO ONLY
SI. No. 23103
KEY : SUHJAP

अदा करें। मूल्य प्राप्त VALUE RECEIVED



Quants
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTHORIZED SIGNATORY

V. Shakti
भारता प्रबंधक / BRANCH MANAGER

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

सी. डी. कोड नं.
GHATAKABAD 0 00642

(हस्ताक्षर नमूना क्र./S.S. NO. 1620 (हस्ताक्षर नमूना क्र./S.S. NO. ...))

042404 भुगतानकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH

042404000000000036 3150

9
8
7
6
5
4
3
2
1

⑈363150⑈ 0000020001: 042404⑈ 16



REGENT AUTOLINKS PVT. LTD.

(Authorised Maruti Dealer)

A-10/9, Site 3 Industrial Area Meerut Road, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Ph.: (0120) 2706034-37, Fax: (0120) 2706038

सिद्धांत - 7

TIN No.: 09289002074 Dt.: 17/10/2002
ST-GB 9350 34 Dt.: 17/10/2002

TAX / VEHICLE INVOICE

Sold To : Mr. Mehtab Ahmad
 Son of : Late Shri Mukhtar Ahmed
 Address : J-29, JUDGE COMPOUND MALHAN NAGAR
 ALIGARH Pin:-(M):9412757860
 Customer ID : IO91892510 PAN No. N/A
 Sales Executive: Saurabh Prabhakar
 Vehicle ID : MA3EYD81S01392406

Invoice No. : VSL09000266
 Invoice Date : 06/05/2009
 Order No. : 50809000282
 Order Date : 04/05/2009
 Key No. : 1809
 Booking Dealer : 5902
 Delivery Dealer : 5902

	Dr Amount	Cr Amount
1 PRICE OF ONE ALTO LXI BS III (WITH IMMOBILISER)-AR4CSF	2,43,639.53	
CHASSIS NO MA3EYD81S01392406		10,667.00
2 Discount	2,32,972.53	
3 Accessable Value	29,121.56	
4 VAT @ 12.5 %		

Regent

Customer Payments

Srl.	Money Rec No.	Rec Date	
1	REC09000616	04/05/2009	2,71,000.00

Total Round Off Amount : 0.09
 Total (Ex Showroom Price) : 2,62,094.00
 Total Received Amount : 2,71,000.00
 Balance to collect/pay : 8,906.00
 Invoice Amount in words : Rupees Two Lakh Sixty Two Thousand Ninety Four Only
 Received Amount in words : Rupees Two Lakh Seventy One Thousand Only

Terms and Conditions

Without Computerized Payment Receipt "Regent Autolinks Pvt. Ltd." is not Liable to Pay/Refund/Adjust any Amounts.

Customer Name & Signatory

(Mr. Mehtab Ahmad)

For REGENT AUTOLINKS PVT LTD

(Authorized Signatory)

Created By : EDPO001
Created Date : 06-MAY-2009 10:47:47

Ref 2.1.0ud

Regu. Off.: M-58, 1st Floor, Greater Kailash-II, New Delhi-110 048.
E-mail : maruti@regentautolinks.com, regent.gzb.spr1@marutidealers.com

2198798

21/05/09

CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES 1989
FORM 23 (See Rule 48)

Certificate of Registration

REGISTRATION No. U.P. 81 / AB 3727

Brief Description of Vehicle..... Maruti Alto Car.
Name of Owner..... Sh. Mehtab Ahmad
8/ Sh. Mukhtar Ahmad
R/o J-29, Judge compound, Malikkam Nagar
Aligarh.

Date..... 21.05.09

Registering Authority
U.P. DEPTT. ALIGARH

1. Class of Vehicle : The Motor Vehicle is mv
A New Vehicle Ex Army Vehicle Imported Vehicle Migration
2. Maker's Name..... MUL
3. Type of Body..... 8060
4. Month & Year of Manufacturer..... 2009
5. No. of Cylinders..... 03
6. Chassis No..... 1392406
7. Engine No..... 3623380
8. Fuel used in the Engine : PETROL / DIESEL
9. H. P. (B. H. P.)..... 28.6 CC
10. Cubic Capacity.....
11. Maker's Classification.....
12. Wheel Base.....
13. Seating Capacity..... Five seat
14. Unladen Weight..... 735 kg.
15. Colours or Colour of Body wings and front and additional Particulars in the case of transport Vehicle other than motor cars.....
16. Gross Vehicle Weight:
(a) as Certified by the manufacturers.....
(b) as Registered.....
17. Number Description & size of Tyre:
(a) Front Axle.....
(b) Any other Axle.....
(c) Rear Axle.....
(d) Tandem Axle.....
18. Registered Axle Weight:
(a) Front Axle..... kg.....
(b) Rear Axle..... kg.....
(c) Any other Axle..... kg.....
(d) Tandem Axle..... kg.....
Additional particulars of alternative of additional or semi-trailer, registered with an articulated vehicle.
19. Type of Body :.....
20. Unladen Weight :.....
21. Number description & size tyres of (each axle).....
22. Registered Axle Weight (in respect of each axle)..... kgs.
Specimen Signature of Registering Owner
Posted and attached by the Registering Authority

This Certificate is valid from..... 21.05.09 to..... 20.05.2024

1. Hire Purchase Agreement M/s..... X

U.P. 81 / AB 3727

FINAL ONE TIME ROAD TAX

Rs..... 8725/- Paid on..... 21.05.09
Vide R. No..... 489528

at R.T.O. Office, Aligarh
Taxation Officer, Aligarh
मुख्य वाहन विभाग, अलीगढ़

Registering Authority
U.P. DEPTT. ALIGARH

प्रेषक,

महताब अहमद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं-11, अलीगढ़।

Regd-98

सेवा में,

श्री बेचेलाल,
संयुक्त निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

पत्रांक सं

दिनांक


विषय- मोटर कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 3574/IV -2412/रूमिन § रू दि. 24.03.09 के अनुसार मुझे मोटर कार अग्रिम रू. 2,50,000/- माननीय न्यायालय द्वारा कार खरीदने हेतु स्वीकृत किया गया था। मोटर कार अग्रिम धनराशि का आहरण मैंने कोषागार, अलीगढ़ के आउचर न. बी-50 दिनांकित 29.03.2009 द्वारा कर लिया है। मोटर कार मारुति सुजुकी -आल्टो -एल एक्स आर्इ नं. UP81-AB 3727 मेरे द्वारा रू. 2,71,000/- में क्रय की गई है।

मोटर कार अग्रिम के परिप्रेक्ष्य में मैं बंधक पत्र प्रपत्र सं-25 भरकर इस पत्र के साथ संलग्न कर के भेज रहा हूँ।

भवदीय,


महताब अहमद

दिनांक 15.5.09 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं-11,
अलीगढ़।

संलग्नक- प्रपत्र संख्या- 25

अलीगढ़ जनपद न्यायालय, अलीगढ़
संख्या 771/EG/2009 दिनांक 26.5.09

धर्मसारित

Or.

जनपद-न्यायाधीश

अलीगढ़

FORM No. 25

[See Chapter XI, paragraph 245-N(3)]

Registered

Form of Mortgage Bond for Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} Advance

THIS INDENTURE made this 15 day of May

Two thousand, nine

BETWEEN MAHTAB AHMAD s/o LATE SH. MUKHTAR AHMAD (hereinafter called the "Borrower") of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called "the Governor") of the other part.

WHEREAS, the Borrower ^{has applied}~~applied~~ for and has been granted an advance of rupees 2,50,000/- (Two Lac Fifty Thousand Only) to purchase motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} onthe terms of paragraph ²⁴⁵~~240~~ of the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the said Rules" which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance ^{has been}~~was~~ grantedto the Borrower ⁱⁿ~~will~~ that the Borrower ^{will}~~would~~ hypothecate the said Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} to the Governor as security for the amount lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased with or partly with the amount so advanced as aforesaid the Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} particulars whereof are set out in the the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Governor the sum of Rs. aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payments of Rs. each on the first day of every month and will pay interest on the said sum and the Borrower doth agree that such payment may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby

assign and transfer unto the Governor the Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} the particulars whereof are set out in the Schedule hereunto written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said rules.And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} and that the same is his absolute propertyand that he has not pledged and so long as any moneys remain payable to the Governor in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} PROVIDED ALWAYS and it

is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be in the service of the State or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property

in, or possession of the said Motor ^{Car}~~Boat~~_{Cycle} or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY